

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 28—मार्च 6, 2015 (फाल्गुन 9, 1936)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 28—MARCH 6, 2015 (PHALGUNA 9, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I —खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 2015

रक्षा (एम ए)

सं. 34, दिनांक 28 जनवरी 2015—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 दिसम्बर, 2014 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक (वायु) ए.डी.सी.

1. एयर मार्शल ए. पी. गरूड, वा.मे.(14692) एफ (पी)

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं 35, दिनांक 29 जनवरी 2015—राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 4/2001 के तहत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

अल्पकालीन सेवा कमीशन

परखाधीन कप्तान के रैंक में

क्रम सं.	नाम	व्यैक्तिक संख्या	कमीशन की तिथि	वरिष्ठता की तिथि
1.	ऋषि शर्मा	(वीएस-01209 एक्स) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
2.	साहित्यनारायण बी	(वीएस-01210 एम) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
3.	अजय ठाकुर	(वीएस-01211 पी) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2013
4.	कार्तिक एम	(वीएस-01212 एक्स) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
5.	विष्णु बी एस	(वीएस-01213 ए) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
6.	पंकज कुमार	(वीएस-01214 एच) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2013
7.	सुरजेश्वरकुमार सहगल	(वीएस-01215 एल) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
8.	गोकर्ण निशित सुहास	(वीएस-01216 एन) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2013
9.	आशीष शर्मा	(वीएस-01217 डब्लू) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
10.	किशोर कोरदा	(वीएस-01218 वाय) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014
11.	तरनदीप सिंह	(वीएस-01219 एफ) आरवीसी	29.09.2014	29.09.2014

दीपक नारंग

अवर सचिव

थलसेना विभाग

सं. 36, दिनांक 30 जनवरी 2015—थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 10(3)(I)/05/डी मेड, 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन) कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

क्रम सं.	निजी संख्या	रैंक व नाम	दिनांक
क	डी एस-12363डब्लू	कप्तान अमरदीप चौधरी	27-08-2009

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस-12524एन कप्तान किरनदीप सिंह — 27-12-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 27-06-2013 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह के लिए दी गई ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

16 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12536ए कप्तान अमित पाराशर — 27-12-2013

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 27-12-2010 से दी जाती हैं । इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी ।

16 अगस्त 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है ।

एच एस संधू
ब्रिग.
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 37, दिनांक 2 फरवरी 2015—राष्ट्रपति स.से.मु. सिविल सेवा के अन्तर्गत निम्न अनुभाग अधिकारियों (समूह ब, राजपत्रित) को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से वेतन बैंड-3 में (रु. 6600/- ग्रेड वेतन सहित रु.15600-39100) उप-निदेशक (समूह अ, राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

संख्या	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
1	श्री राजीव रिक्ख	28 अप्रैल 1959	01 अप्रैल 2006
2	श्री डी.जी. प्रसाद (सेवानिवृत्त)	10 अप्रैल 1952	01 अप्रैल 2007
3	श्री बी.एस. अरोड़ा	05 नवम्बर 1955	01 अप्रैल 2007
4	श्री संजीव सैक्सेना	13 जून 1955	01 अप्रैल 2007
5	श्रीमति शकुन्तला नागराजन (सेवानिवृत्त)	28 सितम्बर 1950	01 अप्रैल 2007
6	श्री एस.एस. नामबीसान	14 मई 1956	01 अप्रैल 2007
7	श्री अजय आहूजा	10 दिसम्बर 1958	01 अप्रैल 2007
8	श्री राम चन्द्रा पात्रो (सेवानिवृत्त)	18 जून 1951	01 अप्रैल 2007
9	श्री बी.पी. शर्मा	24 नवम्बर 1957	01 अप्रैल 2007
10	डॉ. औम प्रकाश ए. बेड़ेकर	09 जून 1963	01 अप्रैल 2007
11	श्री वी.सी. सीरियक (सेवानिवृत्त)	13 अगस्त 1956	01 अप्रैल 2008
12	श्री नरेन्द्र कुमार	10 जुलाई 1958	01 अप्रैल 2008
13	श्री कालीदास मित्रा	05 अगस्त 1959	01 अप्रैल 2008

विजय शंकर वी.
उप-मु.प्र.अ.(एफ.एम.)

थलसेना विभाग

सं. 38, दिनांक 3 फरवरी 2015—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
डी आर-10592 एच	मेजर विजयलक्ष्मी वी मलाली	29-11-2013
डी आर-10618 एम	मेजर वी गोपाल कृष्णन	30-06-2014
डी आर-10595डब्लू	मेजर भूपिन्द्र सिंह	24-07-2014
डी आर-10586 पी	मेजर अरुण कुमार के वी	06-08-2014

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अस्थाई कमीशन)
मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
डी एस-12084 एल	मेजर साई कृष्णा	20-06-2014

थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)
कैप्टन से मेजर के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डीआर -10694वाई (डीएस.12391एच)	कप्तान	प्रमोद कुमार	13-09-.2011
डीआर-10701के (डीएस-12384एम)	कप्तान	आबीर सरकार	03-09-2014

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

निजी संख्या	नाम	टिप्पणी
डी आर-10520वाई	स्क्वार्डन लीडर कमाण्डर सुदीप इन्दु	08-11-2012
(26469 एल)		

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
डी एस-12420एम	कप्तान	अनुभव शिवपुरी	27-04-2012
डी एस-12445वाई	कप्तान	(सुश्री) रुचि हरीश	21-10-2012
डी एस-12461डब्लू	कप्तान	चामर्ति सुर्या	02-04-2013
डी एस-12476वाई	कप्तान	(सुश्री) कीर्ति शर्मा	09-07-2013
डी एस-12460एन	कप्तान	संदीप कसाना	02-10-2013
डी एस-12490एल	कप्तान	आर श्रीनिवासन	12-02-2014
डी एस-12492डब्लू	कप्तान	तरुण कुमार सिंह	15-02-2014
डी एस-12380डब्लू	कप्तान	प्रणव भूयान	30-08-2008
डी एस-12514के	कप्तान	कानाराम चौधरी	20-09-2014
डीएस-12363डब्लू	कप्तान	अमरदीप चौधरी	27-02-2014

एच एस संघू
ब्रिग.
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

सं. 39, दिनांक 4 फरवरी 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में

सूबेदार धीरज सिंह रावत	{जे सी 530075पी}	01 जनवरी 2014
सूबेदार बिरेन्द्र सिंह	{जे सी 530332एफ}	01 जनवरी 2014
सूबेदार प्रभुदयाल बिष्ट	{जे सी 530585डब्ल्यू}	01 मार्च 2014
सूबेदार प्रताप सिंह	{जे सी 530176एच}	01 अप्रैल 2014
सूबेदार हरेन्द्र सिंह	{जे सी 530184एफ}	03 मई 2014 01 मई 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार प्रताप सिंह	{जे सी 530313डब्ल्यू}	02 मई 2014 01 मई 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार सुनील कुमार	{जे सी 530137के}	02 मई 2014 01 मई 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		

सूबेदार कमलेश गुसाईं	{जे सी 530163एल}	04 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार सोवन सिंह	{जे सी 530166एफ}	01 सितम्बर 2014
सूबेदार महेन्द्र सिंह	{जे सी 530224एक्स}	02 सितम्बर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार तेजपाल सिंह, सेना मैडल, विशिष्ट सेना मैडल	{जे सी 530339एच}	01 अक्टूबर 2014
सूबेदार कुलदेव सिंह	{जे सी 530228एन}	03 नवम्बर 2014 24 अक्टूबर 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)		
सूबेदार (जी डी) के रैंक में		
नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह	{जे सी 531014के}	10 मई 2014 30 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार मकर सिंह पंवार	{जे सी 531048एक्स}	01 मई 2014
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	{जे सी 531098एच}	01 मई 2014
नायब सूबेदार दिनेश कुमार रतूरी	{जे सी 531109के}	01 मई 2014
नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह	{जे सी 531122एन}	01 मई 2014
नायब सूबेदार बुधि प्रसाद सत्ती	{जे सी 531123डब्ल्यू}	01 मई 2014
नायब सूबेदार मनवर सिंह	{जे सी 531174के}	13 मई 2014 01 मई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	{जे सी 531205वाई}	01 मई 2014
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह असवाल	{जे सी 531221डब्ल्यू}	01 मई 2014
नायब सूबेदार प्रेम देव कठैत	{जे सी 531239डब्ल्यू}	01 मई 2014
नायब सूबेदार राम सिंह	{जे सी 531245ए}	01 मई 2014
नायब सूबेदार यशवन्त सिंह	{जे सी 531236वाई}	01 मई 2014
नायब सूबेदार विजय कुमार धरमाना, सेना मैडल	{जे सी 531231ए}	12 मई 2014 01 मई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह	{जे सी 531254एफ}	01 मई 2014
नायब सूबेदार जगदीश सिंह	{जे सी 531013एफ}	01 मई 2014
नायब सूबेदार भगिरथ सिंह	{जे सी 531025डब्ल्यू}	02 जून 2014 01 जून 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद	{जे सी 531026वाई}	01 जून 2014
नायब सूबेदार दर्शन सिंह	{जे सी 531033पी}	01 जून 2014
नायब सूबेदार वृजमोहन सिंह	{जे सी 531137डब्ल्यू}	01 जून 2014
नायब सूबेदार उत्तम सिंह	{जे सी 531143के}	01 जून 2014
नायब सूबेदार रूप सिंह रावत	{जे सी 531099एल}	30 अगस्त 2014 01 जून 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार कुंवर सिंह	{जे सी 531247वाई}	22 अगस्त 2014 01 जून 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	{जे सी 531116ए}	01 जून 2014
नायब सूबेदार बिनोद कुमार रावत	{जे सी 531201एच}	16 अक्टूबर 2014 04 जून 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार दलबीर सिंह	{जे सी 530978एन}	27 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार शेखर सिंह	{जे सी 531038एन}	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार गिरीश चन्द्र	{जे सी 531154डब्ल्यू}	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार हरि सिंह	{जे सी 531158एम}	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	{जे सी 531125एफ}	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद	{जे सी 531126के}	01 जुलाई 2014
नायब सूबेदार जय राम	{जे सी 531251एम}	05 जुलाई 2014
नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह नेगी	{जे सी 531039डब्ल्यू}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार बेलम सिंह	{जे सी 5301050पी}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार प्रेम सिंह रावत	{जे सी 531057वाई}	20 सितम्बर 2014 01 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार प्रेम सिंह	{जे सी 531156एफ}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार प्रीतम सिंह	{जे सी 531127एम}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार दिनेश सिंह	{जे सी 531180एक्स}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार इन्द्र सिंह	{जे सी 531202एल}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	{जे सी 531211एम}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार राकेश कुमार धरमाना	{जे सी 531266डब्ल्यू}	01 अगस्त 2014

नायब सूबेदार कुलबीर सिंह	{जे सी 531271एफ}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह	{जे सी 531286के}	12 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार दिनेश प्रसाद	{जे सी 531305के}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार विनोद सिंह नेगी	{जे सी 531396वाई}	01 अगस्त 2014
नायब सूबेदार अनिल कुमार, सेना मैडल	{जे सी 531042डब्ल्यू}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रणजीत सिंह	{जे सी 531058एफ}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार रघुबीर सिंह	{जे सी 531059के}	27 अक्टूबर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार कुशल सिंह	{जे सी 531060वाई}	07 अक्टूबर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार विक्रम सिंह	{जे सी 531074वाई}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार कुलदीप सिंह	{जे सी 531155वाई}	25 सितम्बर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार पुष्प लाल	{जे सी 531157के}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार नल्ही सिंह	{जे सी 531173एफ}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार हसवन्त सिंह विष्ट	{जे सी 531206एफ}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार ओम प्रकाश	{जे सी 531229एच}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार मदन मोहन	{जे सी 531218डब्ल्यू}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार दिनेश सिंह	{जे सी 531237एफ}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार राजेश चन्द्र	{जे सी 531230एक्स}	08 सितम्बर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार मकान सिंह	{जे सी 531261एक्स}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार नरेन्द्र प्रसाद	{जे सी 531291पी}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार श्रवण सिंह	{जे सी 531293ए}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार यशवन्त सिंह	{जे सी 531302डब्ल्यू}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार जतेन्द्र सिंह	{जे सी 531306एम}	01 सितम्बर 2014

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह	{जे सी 531307पी}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार विदिप पाल मयाल	{जे सी 531323एम}	23 अक्टूबर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह असवाल	{जे सी 531310पी}	08 अक्टूबर 2014 01 सितम्बर 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार गौतम सिंह	{जे सी 531397एफ}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार यशपाल सिंह	{जे सी 531398के}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार मानिक चन्द पंवार	{जे सी 531401वाई}	01 सितम्बर 2014
नायब सूबेदार हरि किशन सिंह	{जे सी 531187एफ}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार बलवन्त सिंह	{जे सी 531087डब्ल्यू}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार उत्तम सिंह	{जे सी 531089एफ}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार उमेश चन्द्र ध्यानी	{जे सी 531183एल}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार पुरषोत्तम दत्त रतूड़ी	{जे सी 531281एल}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार दिनेश कुमार	{जे सी 531318एफ}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार गोपी राम	{जे सी 531331एल}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार दिलबर सिंह	{जे सी 531332एन}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार जगमोहन सिंह	{जे सी 531369पी}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार उमेश सिंह	{जे सी 531362एल}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार प्रेम सिंह	{जे सी 531370के}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार चन्द्र सिंह	{जे सी 531379वाई}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार अजय बर्धन	{जे सी 531276ए}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार जसवन्त सिंह	{जे सी 531044एफ}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार बलबीर सिंह	{जे सी 531316एम}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	{जे सी 531308एक्स}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार जनार्दन प्रसाद	{जे सी 531220एन}	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार रघुबीर सिंह	{जे सी 531100पी}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार बिनोद सिंह	{जे सी 531169वाई}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार कमलेश्वर प्रसाद	{जे सी 531175एम}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार कैलाश चन्द्र	{जे सी 531040एल}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार परमेन्द्र सिंह	{जे सी 531311एक्स}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार तेजेन्द्र सिंह	{जे सी 531114पी}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार ताजवर सिंह	{जे सी 531142एफ}	01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार मनबीर सिंह	{जे सी 531192एन}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार जय राम सिंह	{जे सी 531417के}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार जयपाल सिंह असवाल	{जे सी 531420के}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार जयपाल सिंह	{जे सी 531355पी}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद	{जे सी 531317वाई}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	{जे सी 531394एन}	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार चन्द्र मोहन सिंह	{जे सी 531148एच}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार पुष्कर सिंह	{जे सी 531176पी}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार दलीप सिंह	{जे सी 531115एन}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार उमेद सिंह	{जे सी 531297डब्ल्यू}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार प्यार सिंह	{जे सी 531177एफ}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार सत्येन्द्र सिंह	{जे सी 531363एन}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार भ्युराज सिंह	{जे सी 531315एन}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार बिक्रम सिंह कठैत	{जे सी 531280एच}	01 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार नन्दन सिंह	{जे सी 531319के}	01 दिसम्बर 2014

जाट रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विजय पाल (सैं0 3185367 एम अब जेसी-491149 ए) 14 जुलाई 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)

हवलदार मेहाराम कागट (सैं0 3186667 ए अब जेसी-491150 पी) 23 जुलाई 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 मार्च 2014 से दी जायेगी)

हवलदार बनबर सिंह (सैं0 3185923 एक्स अब जेसी-491151 एक्स) 09 जुलाई 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)

हवलदार प्रेम सिंह (सैं0 3184508 के अब जेसी-491152 ए) 01 जून 2014

हवलदार श्रीराम (सैं0 3185293 एच अब जेसी-491153 एच) 26 जून 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)

हवलदार जयवीर सिंह (सैं0 3185645 पी अब जेसी-491154 एल) 30 जून 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)

हवलदार मनरुप सिंह (सैं0 3186752 एच अब जेसी-491155 एन) 02 अगस्त 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)

हवलदार प्रताप सिंह (सैं0 3185999 एक्स अब जेसी-491156 डब्ल्यू) 12 जुलाई 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सैं0 3186041 एच अब जेसी-491157 वाई) 21 अगस्त 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)

हवलदार	महेन्द्र सिंह	(सँ0 3186529 वाई अब जेसी-491158 एफ)	21 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	दिग्विषय नाथ	(सँ0 3187242 एन अब जेसी-491159 के)	05 सितम्बर 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	जसबीर सिंह	(सँ0 3187124 ए अब जेसी-491160 वाई)	23 जुलाई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेश कुमार	(सँ0 3185428 वाई अब जेसी-491161 एफ)	03 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	पेमाराम बोला	(सँ0 3186065 एम अब जेसी-491162 के)	02 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	उदयपाल सिंह	(सँ0 3186101 एम अब जेसी-491163 एम)	02 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	प्यारे लाल	(सँ0 3185715 एच अब जेसी-491164 पी)	12 जुलाई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	रनधीर सिंह	(सँ0 3186064 के अब जेसी-491165 एक्स)	01 जुलाई 2014
हवलदार	वेदपाल	(सँ0 3188303 एम अब जेसी-491166 ए)	16 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेन्द्र सिंह	(सँ0 3185444 डब्ल्यू अब जेसी-491167 एच)	1 अगस्त 2014
हवलदार	संजय कुमार	(सँ0 3185536 एच अब जेसी-491168 एल)	03 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	राधाचरन सिंह	(सँ0 3185653 एन अब जेसी-491169 एन)	01 अगस्त 2014
हवलदार	भागीरथ	(सँ0 3185897 एफ अब जेसी-491170 एच)	01 अगस्त 2014
हवलदार	गुरबचन सिंह	(सँ0 3185941 ए अब जेसी-491171 एल)	01 अगस्त 2014
हवलदार	विजयपाल सिंह	(सँ0 3185773 एम अब जेसी-491172 एन)	09 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	रामकुमार जाट	(सँ0 3185988 एल अब जेसी-491173 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014
हवलदार	देवेन्द्र सिंह	(सँ0 3186047 के अब जेसी-491174 वाई)	01 अगस्त 2014
हवलदार	प्रेम सिंह	(सँ0 3186253 एन अब जेसी-491175 एफ)	04 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	धर्मपाल सिंह	(सँ0 3187770 एक्स अब जेसी-491176 के)	01 अगस्त 2014
हवलदार	धर्मेन्द्र सिंह	(सँ0 3187927 एम अब जेसी-491177 एम)	01 अगस्त 2014
हवलदार	धर्मपाल सिंह	(सँ0 3187977 एक्स अब जेसी-491178 पी)	01 अगस्त 2014
हवलदार	अशोक कुमार	(सँ0 3188393 वाई अब जेसी-491179 एक्स)	01 अगस्त 2014
हवलदार	रामनिवास झाझरिया	(सँ0 3187221 एक्स अब जेसी-491180 एम)	01 अगस्त 2014

हवलदार	राजबीर सिंह	(सँ0 3188792 एच अब जेसी-491181 पी)	01 अगस्त 2014
हवलदार	सुमेर सिंह	(सँ0 3186775 के अब जेसी-491182 एक्स)	21 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	ओमवीर सिंह	(सँ0 3187769 एच अब जेसी-491183 ए)	01 अगस्त 2014
हवलदार लिपिक	मनोज कुमार पडिनहारे वीटिल	(सँ0 3188410 एन अब जेसी-491184 एच)	04 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार लिपिक	रिन्दू बोस	(सँ0 3187265 पी अब जेसी-491185 एल)	01 अगस्त 2014
हवलदार लिपिक	कदम लालासाहेब तुकाराम	(सँ0 3188479 एक्स अब जेसी-491186 एन)	01 अगस्त 2014
हवलदार लिपिक	देवेन्द्र सिंह	(सँ0 3188484 एच अब जेसी-491187 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार : जी0 डी0 के रैंक में

हवलदार सुखविन्दर सिंह	(4472110 के अब जे सी-510526 एच)	13 फरवरी 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार बलवीर सिंह	(4474983 एफ अब जे सी-510527 एल)	07 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार देविन्द्रपाल सिंह	(4475137 ए अब जे सी-510528 एन)	03 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलदीप सिंह	(4473954 ए अब जे सी-510529 डब्ल्यू)	28 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सिकन्दर सिंह	(4472689 एच अब जे सी-510530 एल)	22 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार जसवीर सिंह	(4473207 पी अब जे सी-510531 एन)	09 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार सुखजीत सिंह	(4474869 के अब जे सी-510532 डब्ल्यू)	21 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरमेल सिंह	(4472673 एक्स अब जे सी-510533 वाई)	27 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार हरजीत सिंह	(4473696 एल अब जे सी-510534 एफ)	22 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार बलविंदर सिंह	(4472001 एल अब जे सी-510535 के)	15 जुलाई 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार जसवंत सिंह	(4472713 एन अब जे सी-510537 पी)	01 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार रंजीत सिंह	(4471959 ए अब जे सी-510538 एक्स)	14 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2014 से दी जायेगी।		

हवलदार मलकीत सिंह	(4473563 पी अब जे सी-510539 ए)	14 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार तेजा सिंह	(4472147 वाई अब जे सी-510540 पी)	04 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार रेशम सिंह	(4472206 ए अब जे सी-510541 एक्स)	04 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार मलकीत सिंह	(2993383 के अब जे सी-510542 (ए))	04 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अगस्त 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार करतार सिंह	(4272395 एल अब जे सी-510543 एच)	16 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलदीप सिंह	(4474358 ए अब जे सी-510544 एल)	12 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरनाम सिंह	(4473580 पी अब जे सी-510545 एन)	14 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार बूटा सिंह	(4474491 एच अब जे सी-510548 एफ)	17 जून 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार विजय सिंह	(4471974 पी अब जे सी-510549 के)	01 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार अर्जिन्दर सिंह	(4473376 डब्ल्यू अब जे सी-510550 वाई)	01 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरमेज सिंह	(4474435 के अब जे सी-510551 एफ)	01 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राजकुमार सिंह	(4473955 एच अब जे सी-510552 के)	05 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार काका सिंह	(4473308 एच अब जे सी-510553 एम)	30 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार राजपाल सिंह	(4472047 एन अब जे सी-510554 पी)	08 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अगस्त 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार जागीर सिंह	(4472119 एम अब जे सी-510555 एक्स)	08 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अगस्त 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार शमशेर सिंह	(4473993 वाई अब जे सी-510559 एन)	08 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार जसपाल सिंह	(4474022 ए अब जे सी-510560 एच)	20 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2014 से दी जायेगी।		

हवलदार जशपाल सिंह	(4473128 ए अब जे सी-510561 एल)	20 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार बलवीर सिंह	(4270764 वाई अब जे सी-510562 एन)	14 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार हरजीत सिंह	(13620398 वाई अब जे सी-510563 डब्ल्यू)	24 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जुलाई 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार रेशम सिंह	(4473309 एल अब जे सी-510564 वाई)	20 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी।		

नायब सूबेदार (क्लर्क)एस0 डी0 के रैंक में

हवलदार(क्लर्क) जगजीवन सिंह	(4473291 ए अब जे सी-510546 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) नीरज कुमार	(4473663 ए अब जे सी-510536 एम)	12 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) बंशी लाल	(4473368 एक्स अब जे सी-510547 वाई)	17 सितम्बर 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क) (एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) प्रदीप कुमार एन पी	(4473615 ए अब जे सी-510556 ए)	09 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क) (एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) उत्पल लाहा	(4473916 के अब जे सी-510557 एच)	08 अक्टूबर 2014*
नायब सूबेदार (क्लर्क) (एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी।		

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार {आर टी} के रैंक में

रिफ्रूट आर टी राम मित्रा गौतम	{8431713एक्स अब जे0सी-561188वाई}	<u>28 जून 2014</u>
		28 जून 2014 {ज्येष्ठता}•

- नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 28 जून 2014 से दी जाती है।

नायब सूबेदार {जी0डी/लिपिक} के रैंक में

हवलदार लक्ष्मी नारायण तिवारी	{4273874वाई अब जे0सी-561135ए}	<u>26 फरवरी 2014</u>
		02 जनवरी 2014{ज्येष्ठता}•

- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 02 जनवरी 2014 से दी जाती है।

कम्पनी हवलदार मेजर	बैज नाथ कुमार {4270853एक्स अब जे0सी-561136एच}	<u>24 जून 2014</u>
		30 मार्च 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 30 मार्च 2014 से दी जाती है।		
कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार	सिएच कृष्णा मूरती पत्रौ	{4273316एक्स अब जे0सी-561137एल}
		<u>13 जून 2014</u>
		20 अप्रैल 2014 {ज्येष्ठता}•

- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 20 अप्रैल 2014 से दी जाती है।

हवलदार	जुगेश्वर यादव	{4272056एल अब जे0सी-561138एन} <u>22 जून 2014</u> 05 मई 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 05 मई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	रंजीत रवि शंकर सिंह	{4271066एच अब जे0सी-561139डब्ल्यू} <u>01 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	राज कुमार उरॉव	{4271623डब्ल्यू अब जे0सी-561140एल} <u>03 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	मालिअद छगन भाई हजुर भाई	{4271678ए अब जे0सी-561141एन} <u>03 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	विन्सेंट तिरकी	{4271790एम अब जे0सी-561142डब्ल्यू} <u>09 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	भोला उरॉव	{4273445एक्स अब जे0सी-561143वाई} <u>13 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	उमेश महतौ	{4274510वाई अब जे0सी-561144एफ} <u>01 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
कम्पनी हवलदार मेजर	रविन्द्र सिंह	{4275138वाई अब जे0सी-561145के} <u>01 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	धर्मेन्द्र कुमार तिवारी	{4275971पी अब जे0सी-561146एम} <u>01 जून 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार/लिपिक {एस डी}	अमरजीत सिंह	{4273851एक्स अब जे0सी-561147पी} <u>01 जुलाई 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		

हवलदार	प्रमोद कुमार	{4271930एन अब जे0सी-561148एक्स} 30 जून 2014 07 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 07 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार/लिपिक {एस डी}	राकेश कुमार नेगी	{4272699एच अब जे0सी-561149ए} 03 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार/लिपिक {एस डी}	तुपाकुला श्रीनिवासुलु	{4273121एम अब जे0सी-561150पी} 12 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	बघराई हंसदा	{4271299के अब जे0सी-561151एक्स} 01 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	कैलाश राम	{4271605एन अब जे0सी-561152ए} 01 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	जगदीश धान	{4272760एफ अब जे0सी-561153एच} 01 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	ईगनष तिरु	{4273472एफ अब जे0सी-561154एल} 01 जुलाई 2014 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	रौडेफ तिकी	{4271810पी अब जे0सी-561155एन} 13 जुलाई 2014 01 मार्च 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2014 से दी जाती है।		
कम्पनी हवलदार मेजर	चम्पा उरॉव	{4273599के अब जे0सी-561156डब्ल्यू} 07 जुलाई 2014 01 मार्च 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	मनोहर पुर्ती	{4271531के अब जे0सी-561157वाई} 14 जुलाई 2014 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	शिव चर्ण चिक बाराईक	{4273275वाई अब जे0सी-561158एफ} 11 जुलाई 2014 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		

- कम्पनी हवलदार मेजर विद्या शंकर पांडेय {4270297एम अब जे0सी-561159के}
13 जुलाई 2014
 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।
 कम्पनी हवलदार मेजर मनि कुमार तिवारी {4272793एम अब जे0सी-561160वाई}
28 मई 2014
 01 अप्रैल 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है।
 हवलदार अक्षय कुमार {4274185के अब जे0सी-561161एफ}
28 मई 2014
 01 मई 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2014 से दी जाती है।
 हवलदार मनोज कुमार सिंह {4272549एम अब जे0सी-561162के}
12 जुलाई 2014
 01 मई 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2014 से दी जाती है।
 कम्पनी हवलदार मेजर राज कुमार {4270985एल अब जे0सी-561163एम}
18 जुलाई 2014
 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।
 कम्पनी हवलदार मेजर अमरेन्द्र कुमार {4271050एक्स अब जे0सी-561164पी}
13 जुलाई 2014
 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।
 कम्पनी हवलदार मेजर संजय कुमार {4270971एल अब जे0सी-561165एक्स}
13 जुलाई 2014
 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।
 हवलदार राजेश कुमार छत्तर {4272160वाई अब जे0सी-561166ए}
23 जुलाई 2014
 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।
 कम्पनी क्वार्टरमास्टर हवलदार सुरेश कांत टोप्पनो {4273922एन अब जे0सी-561167एच}
14 जुलाई 2014
 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।
 हवलदार बिरसा खालखौ {4272188वाई अब जे0सी-561168एल}
16 जुलाई 2014
 27 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 जून 2014 से दी जाती है।
 हवलदार/लिपिक {एस डी} सज्जन लाल भुज {4272483एफ अब जे0सी-561169एन}
10 जुलाई 2014
 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।

कम्पनी हवलदार मेजर	लुईश मिंज	{4271443एन अब जे0सी-561170एच} <u>27 जुलाई 2014</u> 01 जुलाई 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	जोलेन भेंगरा	{4274039के अब जे0सी-561171एल} <u>10 जुलाई 2014</u> 30 मार्च 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 30 मार्च 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	दिपक कुमार	{4272531डब्ल्यू अब जे0सी-561172एन} <u>21 जुलाई 2014</u> 11 अप्रैल 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 11 अप्रैल 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	रविंद्र कुमार साहु	{13619799एफ अब जे0सी-561173डब्ल्यू} <u>01 अगस्त 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	संजय कुमार सिंह	{4270415पी अब जे0सी-561174वाई} <u>01 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
कम्पनी हवलदार मेजर	मनोज कुमार झा	{8033182डब्ल्यू अब जे0सी-561175एफ} <u>01 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार/लिपिक {एस डी}	प्रवेश कुमार	{4273013एच अब जे0सी-561176के} <u>01 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	जोशेफ मुरमु	{4271088एफ अब जे0सी-561177एम} <u>01 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	चन्द्र भूषण पांडेय	{4270833के अब जे0सी-561178पी} <u>01 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	सुरेन्द्र प्रसाद	{4271429एफ अब जे0सी-561179एक्स} <u>04 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	विजय कुमार सिंह	{4270886एच अब जे0सी-561180एम} <u>16 अगस्त 2014</u> 15 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 जून 2014 से दी जाती है।		

हवलदार	राजीव कुमार सिंह	[4271978एफ अब जे0सी-561181पी] 13 अगस्त 2014 01 जुलाई 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	मनोज कुमार सिंह	[4272034एम अब जे0सी-561182एक्स] 01 अगस्त 2014 01 जुलाई 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार/लिपिक [एस डी]	चीथला वीरा ब्राहमण	[4273124ए अब जे0सी-561183ए] 01 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	जवाहर सिंह	[4271695ए अब जे0सी-561184एच] 08 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	उमा नाथ कुमार	[2598218पी अब जे0सी-561185एल] 06 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	कालेशवर मुंडा	[4272447डब्ल्यू अब जे0सी-561186एन] 01 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
कम्पनी हवलदार मेजर	धमेन्द्र कुमार	[4272538ए अब जे0सी-561187डब्ल्यू] 06 अगस्त 2014 01 अगस्त 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	औम प्रकाश कुमार सिंह	[4272923के अब जे0सी-561189एफ] 02 सितम्बर 2014 01 मई 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 मई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद	[4272575एन अब जे0सी-561190डब्ल्यू] 23 अगस्त 2014 01 जून 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	दिनेश प्रताप सिंह	[4271898के अब जे0सी-561191वाई] 24 अगस्त 2014 01 जुलाई 2014 [ज्येष्ठता]•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जुलाई 2014 से दी जाती है।		
हवलदार/लिपिक [एस डी]	शुधाकर कुमार	[4273699पी अब जे0सी-561192एफ] 01 सितम्बर 2014 01 सितम्बर 2014 [ज्येष्ठता]•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		

हवलदार/लिपिक {एस डी}	नगेंद्र कुमार उपाध्याय	{4273826वाई अब जे0सी-561193के} <u>01 सितम्बर 2014</u> 01 सितम्बर 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	गोयंदा करकेट्टा	{4272190डब्ल्यू अब जे0सी-561194एम} <u>01 सितम्बर 2014</u> 01 सितम्बर 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	साधु हैरेंज	{4270974वाई अब जे0सी-561195पी} <u>14 सितम्बर 2014</u> 01 दिसम्बर 2013 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 2013 से दी जाती है।		
हवलदार	बिबेका नन्द भारती	{4271357एच अब जे0सी-561196एक्स} <u>06 अगस्त 2014</u> 29 मार्च 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 29 मार्च 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	अमर नाथ साह	{4271586एन अब जे0सी-561197ए} <u>06 अगस्त 2014</u> 29 मार्च 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 29 मार्च 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	मिथिलेश कुमार	{4272563वाई अब जे0सी-561198एच} <u>06 अगस्त 2014</u> 01 अप्रैल 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	जितेन्द्र कुमार सिंह	{4273051वाई अब जे0सी-561199एल} <u>12 अगस्त 2014</u> 01 जून 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	दिगम्बर सिंह	{4270979एक्स अब जे0सी-561200पी} <u>31 अगस्त 2014</u> 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
• वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।		
हवलदार	कालेश्वर साहु	{4271835एफ अब जे0सी-561201एक्स} <u>01 सितम्बर 2014</u> 01 सितम्बर 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		
कम्पनी हवलदार मेजर	सुधीर इन्देवार	{4271798वाई अब जे0सी-561202ए} <u>01 सितम्बर 2014</u> 01 सितम्बर 2014 {ज्येष्ठता}•
• नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।		

- हवलदार उदय उरॉव {4271614पी अब जे0सी-561203एच}
01 सितम्बर 2014
 01 सितम्बर 2014 {ज्येष्ठता}•
- नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।
- हवलदार रामाकांत सिंह {4271845एल अब जे0सी-561204एल}
16 सितम्बर 2014
 01 अगस्त 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 2014 से दी जाती है।
- हवलदार निरंजन प्रसाद राय {4271223के अब जे0सी-561205एन}
30 सितम्बर 2014
 01 सितम्बर 2014 {ज्येष्ठता}•
- वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है।
- हवलदार रमेश कुमार {4271860ए अब जे0सी-561206डब्ल्यू}
01 अक्टूबर 2014
 01 अक्टूबर 2014 {ज्येष्ठता}•
- नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।
- हवलदार संजीव कुमार {4271875एच अब जे0सी-561207वाई}
01 अक्टूबर 2014
 01 अक्टूबर 2014 {ज्येष्ठता}•
- नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।
- हवलदार चन्द्र शेखर कुमार {4272743एफ अब जे0सी-561208एफ}
01 अक्टूबर 2014
 01 अक्टूबर 2014 {ज्येष्ठता}•
- नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।

वी एन रवीन्द्रन
 अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 40, दिनांक 5 फरवरी 2015—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सतपाल (जे सी-421138 डब्ल्यू) 04 दिसम्बर 2014*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सूखदेव सिंह	(जे सी-422183 पी)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार धरमजित तिवारी	(जे सी-421833 एल)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार राजिंदर सिंह	(जे सी-421972 पी)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार दिनेश कुमार	(जे सी-421987 एक्स)	01 नवम्बर 2014
नायब सूबेदार संजय कुमार	(जे सी-421985 एम)	01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार मोहन लाल विश्वकर्मा (जे सी-422024 एक्स) 06 नवम्बर 2014*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जे सी-422315 एक्स) 01 नवम्बर 2014

नायब सूबेदार लेख पाल (जे सी-422002 वाई) 01 दिसम्बर 2014

नायब सूबेदार क्रिशन कुमार (जे सी-422025 ए) 01 दिसम्बर 2014

नायब सूबेदार राज कुमार तिवारी (जे सी-422061 एल) 01 दिसम्बर 2014

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राज कुमार (14919926 ए अब जे सी-422706 एच) 14 नवम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार कुमार गौरव (14921124 पी अब जे सी-422707 एल) 17 अक्टूबर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार पवन कुमार (14921930 एफ अब जे सी-422708 एन) 18 अक्टूबर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार विजय कुमार यादव (14921890 एल अब जे सी-422709 डब्ल्यू) 22 अक्टूबर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार खोमने बाबासाहेब (14922706 एफ अब जे सी-422710 एल) 27 अक्टूबर 2014*

ज्ञानदेव

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार एस राजन (14921583 एन अब जे सी-422711एन) 17 नवम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार दाता राम (14921745 एन अब जे सी-422712 डब्ल्यू) 21 अक्टूबर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार सुनिल कुमार (14922438 एच अब जे सी-422713 वाई) 21 अक्टूबर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार जय श्याम कुमार (14918739 पी अब जे सी-422714एफ) 01 नवम्बर 2014

त्रिपाठी

हवलदार अनूप सिंह (14918811 ए अब जे सी-422715 के) 22 नवम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार कुशल विनोद कुमार (14920247 पी अब जे सी-422716 एम) 17 नवम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार महावदिया मेरामैन (14918567 एल अब जे सी-422717 पी) 10 नवम्बर 2014*

नागाजन

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार अमर नाथ पाठक (14919650 पी अब जे सी-422718 एक्स) 10 नवम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह बिष्ट (14920114 वाई अब जे सी-422719 ए) 04 नवम्बर 2014*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है।)

हवलदार धरमेन्द्रा भारद्वाज (14923002 के अब जे सी-422720 पी) 01 नवम्बर 2014

क्वचित कोर
नायब रिसालदार के रैंक में

1.	दफादार / क्लर्क	विनोद कुमार	(सं० 15469552वाई अब जेसी-246653के)	01 जुलाई 2014
2.	दफादार / क्लर्क	जी रघुनाथन	(सं० 15468794पी अब जेसी-246652एफ)	01 जुलाई 2014
3.	दफादार / क्लर्क	व्यंकटा दुर्गा राव पी	(सं० 15469446ए अब जेसी-246654एम)	01 जुलाई 2014
4.	दफादार / क्लर्क	राजेश कुमार	(सं० 15464944एच अब जेसी-246655पी)	01 अगस्त 2014
5.	दफादार / क्लर्क	सुनिल कुमार सिंह	(सं० 15466211एच अब जेसी-246657ए)	01 अगस्त 2014
6.	दफादार / क्लर्क	कृष्ण पाल	(सं० 15463481एम अब जेसी-246642एक्स)	01 अगस्त 2014
7.	दफादार / क्लर्क	विजय कुमार	(सं० 15469473के अब जेसी-246695डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
8.	दफादार / क्लर्क	जगदीश तंगुरिया	(सं० 15469616वाई अब जेसी-246689एच)	01 सितम्बर 2014
9.	दफादार / क्लर्क	सुरेश कुमार	(सं० 15468693एफ अब जेसी-246691ए)	01 सितम्बर 2014
10.	दफादार / क्लर्क	दिनेश सिंह	(सं० 15468753एल अब जेसी-246692एच)	01 सितम्बर 2014
11.	दफादार / क्लर्क	ब्रजेश कुमार दुबे	(सं० 15469472एफ अब जेसी-246693एल)	01 सितम्बर 2014
12.	दफादार / क्लर्क	दौलत राम	(सं० 15469670एम अब जेसी-246696वाई)	01 सितम्बर 2014
13.	दफादार	विरेन्द्र चन्द	(सं० 15465047वाई अब जेसी-246649एफ)	01 अगस्त 2014
14.	दफादार	सिम्रा दुर्गा प्रसाद	(सं० 15466490वाई अब जेसी-246667के)	*19 अगस्त 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
15.	दफादार	टी अनी कुमार	(सं० 15465365एच अब जेसी-246673एक्स)	01 सितम्बर 2014
16.	दफादार	कुलबीर सिंह	(सं० 15463825ए अब जेसी-246679वाई)	01 सितम्बर 2014
17.	दफादार	शीजीथ ओ पी	(सं० 15466736एम अब जेसी-246680एन)	01 सितम्बर 2014
18.	दफादार	एस सुसाई मानिकम	(सं० 15463365के अब जेसी-246681डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
19.	दफादार	श्रावण सिंह	(सं० 15463992डब्ल्यू अब जेसी-246687एक्स)	01 सितम्बर 2014
20.	दफादार	साबुदिन खान	(सं० 1089692एच अब जेसी-246682वाई)	01 सितम्बर 2014
21.	दफादार	राम लखन सिंह	(सं० 15462185पी अब जेसी-246683एफ)	*14 अगस्त 2014
* (नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
22.	दफादार	अरुना प्रसाद समल	(सं० 15466095एल अब जेसी-246685एम)	*27 अगस्त 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
23.	दफादार	राजेश	(सं० 15464143एफ अब जेसी-246697एफ)	*28 अगस्त 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)				
24.	दफादार	बलबीर	(सं० 15463952पी अब जेसी-246648वाई)	*27 अगस्त 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
25.	दफादार	मुथु सेलवम एस	(सं० 15465373एफ अब जेसी-246677एन)	01 अक्टूबर 2014
26.	दफादार	कमल सिंह	(सं० 15465811वाई अब जेसी-246678डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2014
27.	दफादार	लखविन्दर सिंह	(सं० 15466788एच अब जेसी-246698के)	*10 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जून 2014 से दी जाती है)				

28.	दफादार	शिव शंकर चौधरी	(सं0 1099409एक्स अब जेसी-246700डब्ल्यू)	*02 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
29.	दफादार	गोंडल साहु	(सं0 15463979एम अब जेसी-246701वाई)	01 अक्टूबर 2014
30.	दफादार	बोरडे सुकनादेव हानामंत	(सं0 15464061वाई अब जेसी-246702एफ)	01 अक्टूबर 2014
31.	दफादार	लाथे अशोक शिवापा	(सं0 15464072एल अब जेसी-246703के)	01 अक्टूबर 2014
32.	दफादार	अजय कुमार	(सं0 15463871पी अब जेसी-246704एम)	*17 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
33.	दफादार	जय सिंह गोदारा	(सं0 15465513एच अब जेसी-246705पी)	01 अक्टूबर 2014
34.	दफादार	हरी सिंह	(सं0 15465857एफ अब जेसी-246731डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2014
35.	दफादार	अजय सिंह	(सं0 15462680एन अब जेसी-246706एक्स)	*02 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
36.	दफादार	इकबाल सिंह	(सं0 15462326वाई अब जेसी-246707ए)	01 अक्टूबर 2014
37.	दफादार	तरविन्दर सिंह	(सं0 15463119वाई अब जेसी-246708एच)	01 अक्टूबर 2014
38.	दफादार	दिलबर खान	(सं0 15467380डब्ल्यू अब जेसी-246709एल)	*19 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 अगस्त 2014 से दी जाती है)				
39.	दफादार	संजय कुमार	(सं0 1099513एल अब जेसी-246711एच)	*01 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
40.	दफादार	हवा सिंह धयाल	(सं0 15463987एल अब जेसी-246712एल)	01 अक्टूबर 2014
41.	दफादार	विलास मुताकेकर	(सं0 15462511एम अब जेसी-246714डब्ल्यू)	*29 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
42.	दफादार	चरन सिंह	(सं0 15466197एफ अब जेसी-246718एम)	*29 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
43.	दफादार	करमजीत सिंह	(सं0 15469104एम अब जेसी-246719पी)	*29 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
44.	दफादार	लेख राज	(सं0 15462687एक्स अब जेसी-246715वाई)	*27 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
45.	दफादार	प्रमोद कुमार	(सं0 15464524एच अब जेसी-246716एफ)	*27 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
46.	दफादार	उमेश सिंह	(सं0 15463381एफ अब जेसी-246717के)	*27 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
47.	दफादार	अजय कुमार सिंह	(सं0 15462407वाई अब जेसी-246720के)	*29 सितम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)				
48.	दफादार	राजेन्द्रा सिंह	(सं0 15467899एम अब जेसी-246728डब्ल्यू)	*04 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				

49.	दफादार	एस आनन्दन	(सं0 15464522एक्स अब जेसी-246730एन)	*04 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
50.	दफादार	नागाराजु डी	(सं0 15463497एक्स अब जेसी-246722पी)	*04 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
51.	दफादार	राम चन्द्रा	(सं0 15463582ए अब जेसी-246723एक्स)	*01 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)				
52.	दफादार	श्रावण कुमार	(सं0 15464500वाई अब जेसी-246724ए)	*04 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)				
53.	दफादार	गोकुल चन्द	(सं0 15462290एल अब जेसी-246725एच)	*01 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जाती है)				
54.	दफादार	अरविन्द कुमार सिंह	(सं0 15463607एफ अब जेसी-246729वाई)	*02 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
55.	दफादार	जसविन्दर सिंह	(सं0 15465867एल अब जेसी-246686पी)	*28 अगस्त 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जाती है)				
56.	दफादार	सुलतान खान	(सं0 15468786डब्ल्यू अब जेसी-246710ए)	*14 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)				
57.	दफादार	सुरेश चन्द्रा	(सं0 15466250एफ अब जेसी-246727एन)	*08 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
58.	दफादार	सुरेन्द्र सिंह यादव	(सं0 15461814पी अब जेसी-246699एम)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)				
59.	दफादार	विदया सागर सिंह	(सं0 15461690एल अब जेसी-246732वाई)	01 नवम्बर 2014
60.	दफादार	राकेश कुमार तोमर	(सं0 15462944के अब जेसी-246733एफ)	01 नवम्बर 2014
61.	दफादार	अखिलानंद चौधरी	(सं0 15464324एम अब जेसी-246734के)	*03 नवम्बर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)				
62.	दफादार	जगदेव सिंह	(सं0 15467026एफ अब जेसी-246735एम)	*22 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
63.	दफादार	शिवराम सिंह शिकरवार	(सं0 15462621एफ अब जेसी-246738ए)	*23 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
64.	दफादार	राम सिंह	(सं0 15462368एल अब जेसी-246739एच)	*27 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
65.	दफादार	सत्य वीर सिंह	(सं0 15462410वाई अब जेसी-246740एक्स)	*27 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				

66.	दफादार	महेन्द्र नाथ	(सं0 15462495ए अब जेसी-246741ए)	01 नवम्बर 2014
67.	दफादार	प्रमोद कुमार	(सं0 15466668के अब जेसी-246744एन)	*30 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				
68.	दफादार	मोहन राम	(सं0 15465692एन अब जेसी-246736पी)	*24 अक्टूबर 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)				

राजीव जोहरी
अवर सचिव

थलसेना विभाग

सं. 41, दिनांक 20 फरवरी 2015—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारियों को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

सेवानिवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डीआर-10368डब्ल्यू	कर्नल (टी एस)	आर बी सिंह	31.07.2014 (सायं)
डीआर-10348एच	कर्नल (टी एस)	पी के सिंघल	30.09.2014 (सायं)
डीआर-10418 वाई	कर्नल (टी एस)	एस आर अग्रवाल	30.09.2014 (सायं)
डीआर-10347ए (30897जी)	एयर कोमोडोर	एच के थॉम्बरे	31.03.2014 (सायं)
डीआर-10317एच (17798एफ)	ग्रुप कैप्टन	जे के जैन	28.02.2014 (सायं)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवानिवृत्त, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

समयपूर्व सेवा निवृत्ति

निजी संख्या	रैंक	नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
डीआर-10374के(एएफ-30363)	ग्रुप कैप्टन	सतीश कुमार गुप्ता	15-01-2014 (प्रातः)

एच एस संधू
ब्रिगे.
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 42, दिनांक 9 फरवरी 2015—02 नवम्बर 2013 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना — सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में : —

के स्थान पर

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी एस-12393एन	सुखदीप सिंह	13-03-2012
ख	डी एस-12392एल	रामाकृष्णा एन	13-03-2012
ग	डी एस-12397के	संदीप सिंह	27-04-2012

पढ़ा जाए

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी एस-12393एन	सुखदीप सिंह	13-09-2011
ख	डी एस-12392एल	रामाकृष्णा एन	13-09-2011
ग	डी एस-12397के	संदीप सिंह	27-10-2011

07 जून 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना — सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारी के संबंध में : —

के स्थान पर

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी एस -12329डब्लू	शशि कान्त शर्मा	12-07-2013

पढ़ा जाए

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी एस -12329डब्लू	शशि कान्त शर्मा	12-01-2013

30 मार्च 2013 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना — सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में : —

के स्थान पर

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी एस-12377डब्लू	पीयूष पाठक	28-04-2012
ख	डी एस-12387ए	पंकज कौशिक	05-03-2012

पढ़ा जाए

क्रम सं.	निजी संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
क	डी एस-12377डब्लू	पीयूष पाठक	28-08-2011
ख	डी एस-12387ए	पंकज कौशिक	05-09-2011

07 जून 2014 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना – सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारी के संबंध में : –

के स्थान पर

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी आर-10676डब्लू	कप्तान	टी बालासुंदरम	22-07-2013

पढ़ा जाए

क्रम सं.	निजी संख्या	पद	नाम	टिप्पणी
क	डी आर-10676डब्लू	कप्तान	टी बालासुंदरम	22-01-2013

एच एस संधू
ब्रिगे.
डीडीजीडीएस (पी)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 28th February 2015

D(MS) SECTION

No. 34, dated 28th January 2015—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 Dec 14 :-

Honorary (Air) ADC

Air Mshl AP Garud, VM (14692) F(P)

REVATI RAMAN
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 35, dated 29th January 2015—The President is pleased to make the following appointments under AI 4/2001:-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Captain on Probation

Ser No	Name of Offrs	Personal Number & Regt	Dt of Commission	Dt of Ante date seniority
1.	Rishi Sharma	VS-01209X RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
2.	Sathiyarayanan B	VS-01210M RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
3.	Ajay Thakur	VS-01211P RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2013
4.	Karthik M	VS-01212X RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
5.	Vishnu BS	VS-01213A RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
6.	Pankaj Kumar	VS-01214H RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2013
7.	Surjeshwar Kumar Sehgal	VS-01215L RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
8.	Gokarn Nishit Suhas	VS-01216N RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2013
9.	Ashish Sharma	VS-01217W RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
10.	Kishore Korada	VS-01218Y RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014
11.	Tarandeep Singh	VS-01219F RVC	29 Sep 2014	29 Sep 2014

DEEPAK NARANG
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 36, dated 30th January 2015—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79, as amended and GOI MOD letter Nos.10(3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended:-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

Sl No	Personal Number Allotted	Rank and Name	Date of Reporting For Commissioning
(a)	DS-12363W	Capt Amardeep Chaudhary	27-08-2009

The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)
TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)
(Antedate of Commission)

DS-12524N Capt Kirandeep Singh - 27-12-2013

with seniority for pay and promotion from 27-06-2013 (includes 06 months Antedate for holding Hospital appointment as a Lecturer in Gian Sagar Dental College & Hospital, Ram Nagar, Rajpura, Patiala from 13 Aug 2012 to 19 Oct 2013, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 16 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12536A Capt Amit Parashar - 27-12-2013

with seniority for pay and promotion from 27-12-2010 (36 months antedate for acquiring MDS degree from VK Institute of Dental Sciences, Belgaum, KLE University which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 16 Aug 2014, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 37, dated 2nd February 2015—

MUKHAYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

The President is pleased to appoint the following Section Officers (Group 'B', Gazetted) of AFHQ Civil Service as Deputy Directors (Group 'A', Gazetted) in the Pay Band-III (Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600/-) with effect from the date mentioned against their respective names:

S.No.	Name	Date of Birth	Date of promotion
1	Shri Rajiv Rikh	28 Apr 1959	01 Apr 2006
2	Shri DJ Prasad (Retd.)	10 Apr 1952	01 Apr 2007
3	Shri BS Arora	05 Nov 1955	01 Apr 2007
4	Shri Sanjiv Saxena	13 Jun 1955	01 Apr 2007
5	Smt. Sakuntala Nagarajan (Retd.)	28 Sep 1950	01 Apr 2007
6	Shri SS Nambisan	14 May 1956	01 Apr 2007
7	Shri Ajay Ahuja	10 Dec 1958	01 Apr 2007
8	Shri Ram Chandra Patro (Retd.)	18 Jun 1951	01 Apr 2007
9	Shri BP Sharma	24 Nov 1957	01 Apr 2007
10	Dr. Om Prakash A. Bedekar	09 Jun 1963	01 Apr 2007
11	Shri V.C. Cyriac (Retd.)	13 Aug 1956	01 Apr 2008
12	Shri Narendra Kumar	28 Jun 1958	01 Apr 2008
13	Shri Kalidas Mitra	05 Aug 1959	01 Apr 2008

VIJAY SHANKAR V.
Dy. Chief Administrative Officer (FM)

ARMY BRANCH

No. 38, dated 3rd February 2015—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

PROMOTION FROM MAJ TO LT COL

Ser No	Per No	Rank & Name	Date of Promotion
(a)	DR-10592H	Maj Vijayalaxmi V Malali	29-11-2013
(b)	DR-10618M	Maj V Gopalakrishnan	30-06-2014
(c)	DR-10595W	Maj Bhupinder Singh	24-07-2014
(d)	DR-10586P	Maj Arun Kumar KV	06-08-2014

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

PROMOTION FROM MAJ TO LT COL

Ser No	Per No	Rank & Name	Date of Promotion
(a)	DS-12084L	Maj Sai Krishna	20-06-2014

The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

CAPT TO BE MAJOR

S. No	Pers No	Rank	Name	Date of promotion
(a)	DR-10694Y (DS-12391H)	Capt	Pramod Kumar	13-09-2011
(b)	DR-10701K (DS-12384M)	Capt	Abir Sarkar	03-09-2014

SQN LDR TO WG CDR

Ser No	Per No	Rank & Name	Date of Promotion
(a)	DR-10520Y (26469L, IAF)	SQN LDR Sudip Indu	08-11-2012

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

SHORT SERVICE COMMISSION

CAPT TO BE MAJOR

S. No	Pers No	Rank	Name	Date of promotion
(b)	DS-12420M	Capt	Anubhav Shivpuri	27-04-2012
(c)	DS-12445Y	Capt	(Ms) Ruchi Harish	21-10-2012

S. No	Pers No	Rank	Name	Date of promotion
(d)	DS-12461W	Capt	Chamarthi Surya	02-04-2013
(e)	DS-12476Y	Capt	(Ms) Kirti Sharma	09-07-2013
(f)	DS-12460N	Capt	Sandeep Kasana	02-10-2013
(g)	DS-12490L	Capt	R Srinivasan	12-02-2014
(h)	DS-12492W	Capt	Tarun Kumar Singh	15-02-2014
(j)	DS-12380W	Capt	Pranab Bhuyan	30-08-2014
(k)	DS-12514K	Capt	Kanaram Choudhary	20-09-2014

CAPT TO BE MAJOR

Sr No	Pers No	Rank	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12363W	Capt	Amardeep Chaudhary	27-02-2014

HS SANDHU
Brig
Dy DGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 39, dated 4th February 2015—The President is pleased to make the following promotion:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE GARHWAL RIFLES

TO BE SUB MAJ

Sub Dhiraj Singh Rawat	JC-530075P	01 Jan 2014
Sub Birendra Singh	JC-530332F	01 Jan 2014
Sub Prabhudayal Bisht	JC-530585W	01 Mar 2014
Sub Pratap Singh	JC-530176H	01 Apr 2014
Sub Harendra Singh	JC-530184F	03 May 2014 S-01 May 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 st May 2014 without effect on pay and allowances).		
Sub Pratap Singh	JC-530313W	02 May 2014 S-01 May 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 st May 2014 without effect on pay and allowances).		
Sub Sunil Kumar	JC-530137K	02 May 2014 S-01 May 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 st May 2014 without effect on pay and allowances).		
Sub Kamlesh Gusain	JC-530163L	04 Aug 2014 S-01 Aug 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 st Aug 2014 without effect on pay and allowances).		
Sub Sovan Singh	JC-530166F	01 Sep 2014
Sub Mahendra Singh	JC-530224X	02 Sep 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 st Sep 2014 without effect on pay and allowances).		

Sub Tejpal Singh, SM,VSM	JC-530339H	01 Oct 2014
Sub Kuldev Singh	JC-530228N	03 Nov 2014 S-24 Oct 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 st 24 Oct 2014 without effect on pay and allowances).		

TO BE SUB

Nb Sub Gajendra Singh	JC-531014K	10 May 2014 S-30 Apr 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 30 Apr 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Makar Singh Panwar	JC-531048X	01 May 2014
Nb Sub Surendra Singh	JC-531098H	01 May 2014
Nb Sub Dinesh Kumar Raturi	JC-531109K	01 May 2014
Nb Sub Gajendra Singh	JC-531122N	01 May 2014
Nb Sub Budhi Prasad Sati	JC-531123W	01 May 2014
Nb Sub Manwar Singh	JC-531174K	13 May 2014 S-01 May 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Surendra Singh	JC-531205Y	01 May 2014
Nb Sub Kuldeep Singh Aswal	JC-531221W	01 May 2014
Nb Sub Prem Dev Kathait	JC-531239W	01 May 2014
Nb Sub Ram Singh	JC-531245A	01 May 2014
Nb Sub Yashwant Singh	JC-531236Y	01 May 2014
Nb Sub Bijay Kumar Dhashmana, SM	JC-531231A	12 May 2014 S-01 May 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st May 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Trilok Singh	JC-531254F	01 May 2014
Nb Sub Jagdish Singh	JC-531013F	01 May 2014
Nb Sub Bhagirath Singh	JC-531025W	02 Jun 2014 S-01 Jun 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Rajendra Prasad	JC-531026Y	01 Jun 2014
Nb Sub Darshan Singh	JC-531033P	01 Jun 2014
Nb Sub Brijmohan Singh	JC-531137W	01 Jun 2014
Nb Sub Uttam Singh	JC-531143K	01 Jun 2014
Nb Sub Rup Singh Rawat	JC-531099L	30 Aug 2014 S-01 Jun 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Jun 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Kunwar Singh	JC-531247Y	22 Aug 2014 S-01 Jun 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Narendra Singh	JC-531116A	01 Jun 2014

Nb Sub Binod Kumar Rawat	JC-531201H	16 Oct 2014 S-01 Jun 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Dalbir Singh	JC-530978N	27 Jul 2014 S-01 Jul 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Jul 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Shekher Singh	JC-531038N	01 Jul 2014
Nb Sub Girish Chandra	JC-531154W	01 Jul 2014
Nb Sub Hari Singh	JC-531158M	01 Jul 2014
Nb Sub Rajendra Singh	JC-531125F	01 Jul 2014
Nb Sub Rajendra Prasad	JC-531126K	01 Jul 2014
Nb Sub Jai Ram	JC-531251M	05 Jul 2014
Nb Sub Laxman Singh Negi	JC-531039W	01 Aug 2014
Nb Sub Belam Singh	JC-531050P	01 Aug 2014
Nb Sub Prem Singh Rawat	JC-531057Y	20 Sep 2014 S-01 Aug 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Prem Singh	JC-531156F	01 Aug 2014
Nb Sub Pritam Singh	JC-531127M	01 Aug 2014
Nb Sub Dinesh Singh	JC-531180X	01 Aug 2014
Nb Sub Indra Singh	JC-531202L	01 Aug 2012
Nb Sub Surender Singh	JC-531211M	01 Aug 2014
Nb Sub Rakesh Kumar Dhashmana	JC-531266W	01 Aug 2014
Nb Sub Kulbeer Singh	JC-531271F	01 Aug 2014
Nb Sub Rajendra Singh	JC-531286K	12 Aug 2014 S-01 Aug 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Aug 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Dinesh Prasad	JC-531305K	01 Aug 2014
Nb Sub Vinod Singh Negi	JC-531396Y	01 Aug 2014
Nb Sub Anil Kumar, SM	JC-531042W	01 Sep 2014
Nb Sub Ranjeet Singh	JC-531058F	01 Sep 2014
Nb Sub Raghubir Singh	JC-531059K	27 Oct 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Kushal Singh	JC-531060Y	07 Oct 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Vikram Singh	JC-531074Y	01 Sep 2014
Nb Sub Kuldeep Singh	JC-531155Y	25 Sep 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay and allowances).		

Nb Sub Pushpa Lal	JC-531157K	01 Sep 2014
Nb Sub Nathi Singh	JC-531173F	01 Sep 2014
Nb Sub Haswant Singh Bisht	JC-531206F	01 Sep 2014
Nb Sub Om Prakash	JC-531229H	01 Sep 2014
Nb Sub Madan Mohan	JC531218W	01 Sep 2014
Nb Sub Dinesh Singh	JC-531237F	01 Sep 2014
Nb Sub Rajesh Chandra	JC-531230X	08 Sep 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Makan Singh	JC-531261X	01 Sep 2014
Nb Sub Narendra Prasad	JC-531291P	01 Sep 2014
Nb Sub Sharwan Singh	JC-531293A	01 Sep 2014
Nb Sub Yashwant Singh	JC-531302W	01 Sep 2014
Nb Sub Jatender Singh	JC-531306M	01 Sep 2014
Nb Sub Laxman Singh	JC-531307P	01 Sep 2014
Nb Sub Videp Pal Mayal	JC-531323M	23 Oct 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Sep 2014 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Vijendra Singh Aswal	JC-531310P	08 Oct 2014 S-01 Sep 2014*
*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 st Sep 2013 without effect on pay and allowances).		
Nb Sub Gautam Singh	JC-531397F	01 Sep 2014
Nb Sub Yashpal Singh	JC-531398K	01 Sep 2014
Nb Sub Manik Chand Panwar	JC-531401Y	01 Sep 2014
Nb Sub Hari Krishan Singh Rawat	JC-531187F	01 Oct 2014
Nb Sub Balwant Singh	JC-531087W	01 Oct 2014
Nb Sub Uttam Singh	JC-531089F	01 Oct 2014
Nb Sub Umesh Chandra Dhyani	JC-531183L	01 Oct 2014
Nb Sub Purshotam Dutt Raturi	JC-531281L	01 Oct 2014
Nb Sub Dinesh Kumar	JC-531318F	01 Oct 2014
Nb Sub Gopi Ram	JC-531331L	01 Oct 2014
Nb Sub Dilbar Singh	JC-531332N	01 Oct 2014
Nb Sub Jagmohan Singh	JC-531369P	01 Oct 2014
Nb Sub Ummed Singh	JC-531362L	01 Oct 2014
Nb Sub Prem Singh	JC-531370K	01 Oct 2014
Nb Sub Chandra Singh	JC-531379Y	01 Oct 2014
Nb Sub Ajay Vardhan	JC-531276A	01 Oct 2014
Nb Sub Jaswant Singh	JC-531044F	01 Oct 2014
Nb Sub Balbir Singh	JC-531316N	01 Oct 2014

Nb Sub Surendra Singh	JC-531308X	01 Oct 2014
Nb Sub Janardhan Prasad	JC-531220N	01 Oct 2014
Nb Sub Raghubir Singh	JC-531100P	01 Nov 2014
Nb Sub Vinod Singh	JC-531169Y	01 Nov 2014
Nb Sub Kamleshwar Prasad	JC-531175M	01 Nov 2014
Nb Sub Kailash Chandra	JC-531040L	01 Nov 2014
Nb Sub Parmendra Singh	JC-531311X	01 Nov 2014
Nb Sub Tejendra Singh	JC-531114P	01 Nov 2014
Nb Sub Tajwer Singh	JC-531142F	01 Nov 2014
Nb Sub Manbir Singh	JC-531192N	01 Nov 2014
Nb Sub Jai Ram Singh	JC-531417K	01 Nov 2014
Nb Sub Jaipal Singh Aswal	JC-531420K	01 Nov 2014
Nb Sub Jaypal Singh	JC-531355P	01 Nov 2014
Nb Sub Rajendra Prasad	JC-511317Y	01 Nov 2014
Nb Sub Surendra Singh	JC-531394N	01 Nov 2014
Nb Sub Chandra Mohan Singh	JC-531148H	01 Dec 2014
Nb Sub Pushkar Singh	JC-531176P	01 Dec 2014
Nb Sub Daleep Singh	JC-531115N	01 Dec 2014
Nb Sub Umed Singh	JC-531297W	01 Dec 2014
Nb Sub Pyar Singh	JC-531177F	01 Dec 2014
Nb Sub Satyendra Singh	JC-531363N	01 Dec 2014
Nb Sub Bhyuraj Singh	JC-531315N	01 Dec 2014
Nb Sub Bikram Singh Kathait	JC-531280H	01 Dec 2014
Nb Sub Nandan Singh	JC-531319K	01 Dec 2014

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Vijay Pal (No 3185367M now JC-491149A) 14th July 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Meha Ram Kagat (No 3186667A now JC-491150P) 23rd July 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 07 Mar 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Banbar Singh (No 3185923X now JC-491151X) 9th July 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 20 Apr 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Prem Singh (No 3184508K now JC-491152A) 1st June 2014

Hav Sri Ram (No 3185293H now JC-491153H) 26th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Jaiveer Singh (No 3185645P now JC-491154L) 30th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Manroop Singh (No 3186752H now JC-491155N) 2nd Aug 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav	Partap Singh	(No 3185999X now JC-491156W)	12 th July 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Narendra Singh	(No 3186041H now JC-491157Y)	21 st Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Mahendra Singh	(No 3186529Y now JC-491158F)	21 st Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Diguisai Nath	(No 3187242N now JC-491159K)	5 th Sep 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Jasbir Singh	(No 3187124A now JC-491160Y)	23 rd July 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 25 June 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Suresh Kumar	(No 3185428Y now JC-491161F)	3 rd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Pema Ram Bola	(No 3186065M now JC-491162K)	2 nd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Udaypal Singh	(No 3186101M now JC-491163M)	2 nd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Pyare Lal	(No 3185715H now JC-491164P)	12 th July 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 July 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Randhir Singh	(No 3186064K now JC-491165X)	1 st July 2014
Hav	Ved Pal	(No 3188303M now JC-491166A)	16 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 13 July 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Surender Singh	(No 3185444W now JC-491167H)	1 st Aug 2014
Hav	Sanjay Kumar	(No 3185536H now JC-491168L)	3 rd Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Radha Charan Singh	(No 3185653N now JC-491169N)	1 st Aug 2014
Hav	Bhagirath	(No 3185897F now JC-491170H)	1 st Aug 2014
Hav	Gurbachan Singh	(No 3185941A now JC-491171L)	1 st Aug 2014
Hav	Vijay Pal Singh	(No 3185773M now JC-491172N)	9 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Ram Kumar Jat	(No 3185988L now JC-491173W)	1 st Aug 2014
Hav	Devender Singh	(No 3186047K now JC-491174Y)	1 st Aug 2014
Hav	Prem Singh	(No 3186253N now JC-491175F)	4 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Dharpal Singh	(No 3187770X now JC-491176K)	1 st Aug 2014
Hav	Dharmender Singh	(No 3187927M now JC-491177M)	1 st Aug 2014
Hav	Dharpal Singh	(No 3187977X now JC-491178P)	1 st Aug 2014
Hav	Ashok Kumar	(No 3188393Y now JC-491179X)	1 st Aug 2014
Hav	Ram Niwas Jhajharia	(No 3187221X now JC-491180M)	1 st Aug 2014
Hav	Rajbir Singh	(No 3188792H now JC-491181P)	1 st Aug 2014

Hav	Sumer Singh	(No 3186775K now JC-491182X)	21 st Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Omvir Singh	(No 3187769H now JC-491183A)	1 st Aug 2014
Hav Clk	Manoj Kumar Padinhare Veettil	(No 3188410N now JC-491184H)	4 th Aug 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav Clk	Rintu Bose	(No 3187265P now JC-491185L)	1 st Aug 2014
Hav Clk	Kadam Lalasaheb Tukaram	(No 3188479X now JC-491186N)	1 st Aug 2014
Hav Clk	Devendra Singh	(No 3188484H now JC-491187W)	1 st Aug 2014

THE SIKH LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Sukhwinder Singh	(4472110K now JC-510526H)	13 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2014.		
Hav Balvir Singh	(4474983F now JC-510527L)	07 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2014.		
Hav Davinderpal Singh	(4475137A now JC-510528N)	03 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2014.		
Hav Kuldip Singh	(4473954A now JC-510529W)	28 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 15 May 2014.		
Hav Sikander Singh	(4472689H now JC-510530L)	22 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jun 2014.		
Hav Jasvir Singh	(4473207P now JC-510531N)	09 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jun 2014.		
Hav Sukhjot Singh	(4474869K now JC-510532W)	21 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jun 2014.		
Hav Gurmail Singh	(4472673X now JC-510533Y)	27 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jun 2014.		
Hav Harjeet Singh	(4473696L now JC-510534F)	22 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 20 Jun 2014.		
Hav Balwinder Singh	(4472001L now JC-510535K)	15 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Jun 2014.		
Hav Jaswant Singh	(4472713N now JC-510537P)	01 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2013.		
Hav Ranjit Singh	(4471959A now JC-510538X)	14 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 31 Mar 2014.		
Hav Malkit Singh	(4473563P now JC-510539A)	14 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2014.		
Hav Teja Singh	(4472147Y now JC-510540P)	04 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 19 May 2014.		

Hav Resham Singh	(4472206A now JC-510541X)	04 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 22 May 2014.		
Hav Malkit Singh	(2993383K now JC-510542A)	04 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 19 Aug 2014.		
Hav Kartar Singh	(4272395L now JC-510543H)	16 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Jun 2014.		
Hav Kuldeep Singh	(4474358A now JC-510544L)	12 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 04 Jul 2014.		
Hav Gurnam Singh	(4473580P now JC-510545N)	14 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 28 Jul 2014.		
Hav Buta Singh	(4474491H now JC-510548F)	17 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 08 Apr 2014.		
Hav Vijay Singh	(4471974P now JC-510549K)	01 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 May 2014.		
Hav Arjinder Singh	(4473376W now JC-510550Y)	01 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 May 2014.		
Hav Gurmej Singh	(4474435K now JC-510551F)	01 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 May 2014.		
Hav Raj Kumar Singh	(4473955H now JC-510552K)	05 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2014.		
Hav Kaka Singh	(4473308H now JC-510553M)	30 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Jul 2014.		
Hav Rajpal Singh	(4472047N now JC-510554P)	08 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Aug 2014.		
Hav Jagir Singh	(4472119M now JC-510555X)	08 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Aug 2014.		
Hav Shamsher Singh	(4473993Y now JC-510559N)	08 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 May 2014.		
Hav Jaspal Singh	(4474022A now JC-510560H)	20 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 May 2014.		
Hav Jashpal Singh	(4473128A now JC-510561L)	20 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Jun 2014.		
Hav Balvir Singh	(4270764Y now JC-510562N)	14 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 18 Jul 2014.		
Hav Harjit Singh	(13620398Y now JC-510563W)	24 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Jul 2014.		
Hav Resham Singh	(4473309L now JC-510564Y)	20 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2014.		

To be Naib Subedar (Clk) (SD)		
Hav (Clk) Jagjivan Singh	(4473291A now JC-510546W)	01 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Aug 2014.		
Hav (Clk) Neeraj Kumar	(4473663A now JC-510536M)	12 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Sep 2014.		
Hav (Clk) Banshi Lal	(4473368X now JC-510547Y)	17 Sep 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with effect from 01 Sep 2014.		
Hav (Clk) Pradeep Kumar NP	(4473615A now JC-510556A)	09 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with effect from 01 Oct 2014.		
Hav (Clk) Utpal Laha	(4473916K now JC-510557H)	08 Oct 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with effect from 01 Oct 2014.		
THE BIHAR REGIMENT		
To Be Naib Subedar {RT}		
Rect RT Ram Mitra Gautam	(No 8431713X now JC-561188Y)	28 th June 2014
		28 th June 2014 (S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 28 th June 2014.		
TO BE NAIB SUBEDAR {GD/CLK}		
Hav Lakshmi Narayan Tiwary	(No 4273874Y now JC-561135A)	26 th February 2014
		02 nd January 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 02 nd January 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Baij Nath Kumar	(No 4270853X now JC-561136H)	24 th June 2014
		30 th March 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 th March 2014 without effect on pay and allces.		
CQMH CH Krushna Murty Patro	(No 4273316X now JC-561137L)	13 th June 2014
		20 th April 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 20 th April 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Jugeshwar Yadav	(No 4272056L now JC-561138N)	22 nd June 2014
		05 th May 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 05 th May 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Ranjit Ravi Shankar Singh	(No 4271066H now JC-561139W)	01 st June 2014
		01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014.		
Hav Raj Kumar Oraon	(No 4271623W now JC-561140L)	03 rd June 2014
		01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Maliuad Chhagan Bhai Hajur Bhai	(No 4271678A now JC-561141N)	03 rd June 2014
		01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Vincent Tirkey	(No 4271790M now JC-561142W)	09 th June 2014
		01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		

Hav Bhola Oraon	(No 4273445X now JC-561143Y)	13 th June 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Umesh Mahto	(No 4274510Y now JC-561144F)	01 st June 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014.		
CHM Rabindra Singh	(No 4275138Y now JC-561145K)	01 st June 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014.		
Hav Dharmendra Kumar Tiwari	(No 4275971P now JC-561146M)	01 st June 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014.		
Hav/Clk(SD) Amarjeet Singh	(No 4273851X now JC-561147P)	01 st July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Pramod Kumar	(No 4271930N now JC-561148X)	30 th June 2014 07 th June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 07 th June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav/Clk(SD) Rakesh Kumar Negi	(No 4272699H now JC-561149A)	03 rd July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
Hav/Clk(SD) Thupakula Sreenivasulu	(No 4273121M now JC-561150P)	12 th July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Baghrai Hansda	(No 4271299K now JC-561151X)	01 st July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014.		
Hav Kailash Ram	(No 4271605N now JC-561152A)	01 st July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014.		
Hav Jagdish Dhan	(No 4272760F now JC-561153H)	01 st July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014.		
Hav Ignace Tiru	(No 4273472F now JC-561154L)	01 st July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014.		
Hav Rodef Tirkey	(No 4271810P now JC-561155N)	13 th July 2014 01 st March 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st March 2014 without effect on pay and allces.		

CHM Champa Oraon	(No 4273599K now JC-561156W)	07 th July 2014 01 st March 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st March 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Manohar Purty	(No 4271531K now JC-561157Y)	14 th July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Shiv Charan Chick Baraick	(No 4273275Y now JC-561158F)	11 th July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Vidya Shankar Pandey	(No 4270297M now JC-561159K)	13 th July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Mani Kumar Tiwari	(No 4272793M now JC-561160Y)	28 th May 2014 01 st April 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st April 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Akshay Kumar	(No 4274185K now JC-561161F)	28 th May 2014 01 st May 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st May 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Manoj Kumar Singh	(No 4272549M now JC-561162K)	12 th July 2014 01 st May 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st May 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Raj Kumar	(No 4270985L now JC-561163M)	18 th July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Amrendra Kumar	(No 4271050X now JC-561164P)	13 th July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Sanjay Kumar	(No 4270971L now JC-561165X)	13 th July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Rajesh Kumar Chattar	(No 4272160Y now JC-561166A)	23 rd July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
CQMH Suresh Kant Toppno	(No 4273922N now JC-561167H)	14 th July 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Birsa Xalxo	(No 4272188Y now JC-561168L)	16 th July 2014 27 th June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 th June 2014 without effect on pay and allces.		

Hav/Clk(SD) Sajjan Lal Bhuj	(No 4272483F now JC-561169N)	10 th July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
CHM Louis Minz	(No 4271443N now JC-561170H)	27 th July 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Jolen Bhengra	(No 4274039K now JC-561171L)	10 th July 2014 30 th March 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 th March 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Deepak Kumar	(No 4272531W now JC-561172N)	21 st July 2014 11 th April 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 11 th April 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Rabindra Kumar Sahu	(No 13619799F now JC-561173W)	01 st August 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Sanjay Kumar Singh	(No 4270415P now JC-561174Y)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
CHM Manoj Kumar Jha	(No 8033182W now JC-561175F)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
Hav/Clk(SD) Parvesh Kumar	(No 4273013H now JC-561176K)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
Hav Joseph Murmu	(No 4271088F now JC-561177M)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
Hav Chandra Bhushan Pandey	(No 4270833K now JC-561178P)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
Hav Surendra Prasad	(No 4271429F now JC-561179X)	04 th August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Vijay Kumar Singh	(No 4270886H now JC-561180M)	16 th August 2014 15 th June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 15 th June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Rajiv Kumar Singh	(No 4271978F now JC-561181P)	13 th August 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		

Hav Manoj Kumar Singh	(No 4272034M now JC-561182X)	01 st August 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
Hav/Clk(SD) Chinthala Veera Brahman	(No 4273124A now JC-561183A)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
Hav Jawahar Singh	(No 4271695A now JC-561184H)	08 th August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Uma Nath Kumar	(No 2598218P now JC-561185L)	06 th August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Kaleshwar Munda	(No 4272447W now JC-561186N)	01 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014.		
CHM Dharmendra Kumar	(No 4272538A now JC-561187W)	06 th August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Om Prakash Kumar Singh	(No 4272923K now JC-561189F)	02 nd September 2014 01 st May 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st May 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Rajendra Prasad	(No 4272575N now JC-561190W)	23 rd August 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Dinesh Pratap Singh	(No 4271898K now JC-561191Y)	24 th August 2014 01 st July 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st July 2014 without effect on pay and allces.		
Hav/Clk(SD) Sudhakar Kumar	(No 4273699P now JC-561192F)	01 st September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014.		
Hav/Clk(SD) Nagendra Kumar Upadhyaya	(No 4273826Y now JC-561193K)	01 st September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014.		
Hav Goyanda Kerketta	(No 4272190W now JC-561194M)	01 st September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014.		
Hav Sadho Herenj	(No 4270974Y now JC-561195P)	14 th September 2014 01 st December 2013(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st December 2013 without effect on pay and allces.		

Hav Bibeka Nand Bharti	(No 4271357H now JC-561196X)	06 th August 2014 29 th March 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 th March 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Amar Nath Sah	(No 4271586N now JC-561197A)	06 th August 2014 29 th March 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 29 th March 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Mithilesh Kumar	(No 4272563Y now JC-561198H)	06 th August 2014 01 st April 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st April 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Jitendra Kumar Singh	(No 4273051Y now JC-561199L)	12 th August 2014 01 st June 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st June 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Digamber Singh	(No 4270979X now JC-561200P)	31 st August 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Kaleshwar Sahu	(No 4271835F now JC-561201X)	01 st September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014.		
CHM Sudhir Indewar	(No 4271798Y now JC-561202A)	01 st September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014.		
Hav Udaya Oraon	(No 4271614P now JC-561203H)	01 st September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014.		
Hav Rama Kant Singh	(No 4271845L now JC-561204L)	16 th September 2014 01 st August 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st August 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Niranjana Prasad Ray	(No 4271223K now JC-561205N)	30 th September 2014 01 st September 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st September 2014 without effect on pay and allces.		
Hav Ramesh Kumar	(No 4271860A now JC-561206W)	01 st October 2014 01 st October 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st October 2014.		
Hav Sanjeev Kumar	(No 4271875H now JC-561207Y)	01 st October 2014 01 st October 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st October 2014.		
Hav Chandra Shekhar Kumar	(No 4272743F now JC-561208F)	01 st October 2014 01 st October 2014(S)*
* Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 st October 2014.		

V N RAVEENDRAN
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 40, dated 5th February 2015—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

SUB SATPAL	(JC-421138W)	04 th Dec 2014*
------------	--------------	----------------------------

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar Major wef 01st Dec 2014 without effect on pay and allowances)

To be Substantive Subedar (GD)

NB SUB SUKHDEV SINGH	(JC-422183P)	01 st Oct 2014
NB SUB DHARAMJEET TIWARI	(JC-421833L)	01 st Nov 2014
NB SUB RAJINDER SINGH	(JC-421972P)	01 st Nov 2014
NB SUB DINESH KUMAR`	(JC-421987X)	01 st Nov 2014
NB SUB SANJAY KUMAR	(JC-421985M)	01 st Nov 2014
NB SUB MOHAN LAL VISHWAKARMA	(JC-422024X)	06 th Nov 2014*

*(Granted seniority in the rank of substantive Subedar wef 01st Nov 2014 without effect on pay and allowances)

NB SUB HUKAM SINGH	(JC-422315X)	01 st Nov 2014
NB SUB LEKH PAL	(JC-422002Y)	01 st Dec 2014
NB SUB KRISHAN KUMAR	(JC-422025A)	01 st Dec 2014
NB SUB RAJ KUMAR TIWARI	(JC-422061L)	01 st Dec 2014

To be Naib Subedar

HAV RAJ KUMAR	(14919926A Now JC-422706H)	14 th Nov 2014*
---------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV KUMAR GAURAV	(14921124P Now JC-422707L)	17 th Oct 2014*
------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV PAWAN KUMAR	(14921930F Now JC-422708N)	18 th Oct 2014*
-----------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV VIJAY KUMAR YADAV	(14921890L Now JC-422709W)	22 nd Oct 2014*
-----------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV KHOMANE BABASAHEB DNYANDEO	(14922706F Now JC-422710L)	27 th Oct 2014*
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV S RAJAN	(14921583N Now JC-422711N)	17 th Nov 2014*
-------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV DATA RAM	(14921745N Now JC-422712W)	21 st Oct 2014*
--------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV SUNIL KUMAR	(14922438H Now JC-422713Y)	21 st Oct 2014*
-----------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 15 Oct 2014 without effect on pay and allowances)

HAV JAI SHYAM KUMAR TRIPATHI	(14918739P Now JC-422714F)	01 st Nov 2014
------------------------------	----------------------------	---------------------------

HAV ANOOP SINGH	(14918811A Now JC-422715K)	22 nd Nov 2014*
-----------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV KUSHAL VINOD KUMAR	(14920247P Now JC-422716M)	17 th Nov 2014*
------------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV MAHAVADIYA MERAMAN NAGAJAN	(14918567L Now JC-422717P)	10 th Nov 2014*
--------------------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV AMAR NATH PATHAK	(14919650P Now JC-422718X)	10 th Nov 2014*
----------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV SURENDRA SINGH BISHT	(14920114Y Now JC-422719A)	04 th Nov 2014*
--------------------------	----------------------------	----------------------------

*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)

HAV DHARMENDRA BHARDWAJ	(14923002K Now JC-422720P)	01 st Nov 2014
-------------------------	----------------------------	---------------------------

ARMoured CORPS

(To be NBRIS)

DFR(CLKSD) VINOD KUMAR	(No. 15469552Y now JC246653K)	01 Jul 2014
------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) G RAGUNATHAN	(No. 15468794P now JC246652F)	01 Jul 2014
-------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) VENKATA DURGA RAO P	(No. 15469446A now JC246654M)	01 Jul 2014
--------------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) RAJESH KUMAR	(No. 15464944H now JC246655P)	01 Aug 2014
-------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) SUNIL KUMAR SINGH	(No. 15466211H now JC246657A)	01 Aug 2014
------------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(GNR/OPR) KIRSHAN PAL	(No. 15463481M now JC246642X)	01 Aug 2014
--------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) VIJAY KUMAR	(No. 15469473K now JC246695W)	01 Sep 2014
------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) JAGDISH TANGURIA	(No. 15469616Y now JC246689H)	01 Sep 2014
-----------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) SURESH KUMAR	(No. 15468693F now JC246691A)	01 Sep 2014
-------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) DINESH SINGH	(No. 15468753L now JC246692H)	01 Sep 2014
-------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) BRAJESH KUMAR DUBEY	(No. 15469472F now JC246693L)	01 Sep 2014
--------------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(CLKSD) DAULAT RAM	(No. 15469670M now JC246696Y)	01 Sep 2014
-----------------------	-------------------------------	-------------

DFR(DVR/GNR) VIRENDER CHAND	(No. 15465047Y now JC246649F)	01 Aug 2014
-----------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(OPR/GNR) SIMMA DURGAPRASAD	(No. 15466490Y now JC246667K)	*19 Aug 2014
--------------------------------	-------------------------------	--------------

*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)

DFR(DVR/GNR) T ANI KUMAR	(No. 15465365H now JC246673X)	01 Sep 2014
--------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(DVR/OPR) KULBIR SINGH	(No. 15463825A now JC246679Y)	01 Sep 2014
---------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(OPR/DVR) SHIJITH OP	(No. 15466736M now JC246680N)	01 Sep 2014
-------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(DVR/OPR) S.SOOSAI MANICKAM	(No. 15463365K now JC246681W)	01 Sep 2014
--------------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(DVR/OPR) SHRAWAN SINGH	(No. 15463992W now JC246687X)	01 Sep 2014
----------------------------	-------------------------------	-------------

DFR(SOWRD) SABUDIN KHAN	(No. 1089692H now JC246682Y)	01 Sep 2014
-------------------------	------------------------------	-------------

DFR(GNR/OPR) RAM LAKHAN SINGH	(No. 15462185P now JC246683F)	*14 Aug 2014
-------------------------------	-------------------------------	--------------

*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 15 Jul 2014 without effect on pay and allowances)

DFR(OPR/GNR) ARUNA PRASAD SAMAL	(No. 15466095L now JC246685M)	*27 Aug 2014
---------------------------------	-------------------------------	--------------

*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)

DFR(OPR/GNR) RAJESH	(No. 15464143F now JC246697F)	*28 Aug 2014
---------------------	-------------------------------	--------------

*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)

DFR(OPR/GNR) BALBIR	(No. 15463952P now JC246648Y)	*27 Aug 2014
---------------------	-------------------------------	--------------

*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 27 Jul 2014 without effect on pay and allowances)

DFR(GNR/DVR) MUTHU SELVAM S	(No. 15465373F now JC246677N)	01 Oct 2014
DFR(GNR/DVR) KAMAL SINGH	(No. 15465811Y now JC246678W)	01 Oct 2014
DFR(GNR/DVR) LAKHWINDER SINGH	(No. 15466788H now JC246698K)	*10 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 29 Jun 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(GNR/OPR) SHEO SHANKAR CHOUDHARY	(No. 1099409X now JC246700W)	*02 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) GONDAL SAHU	(No. 15463979M now JC246701Y)	01 Oct 2014
DFR(DVR/OPR) BORADE SUKNADEO HANAMANT	(No. 15464061Y now JC246702F)	01 Oct 2014
DFR(DVR/GNR) LATHE ASHOK SHIVAPA	(No. 15464072L now JC246703K)	01 Oct 2014
DFR(DVR/GNR) AJAY KUMAR	(No. 15463871P now JC246704M)	*17 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) JAI SINGH GODARA	(No. 15465513H now JC246705P)	01 Oct 2014
DFR(DVR/GNR) HARI SINGH	(No. 15465857F now JC246731W)	01 Oct 2014
DFR(DVR/OPR) AJAI SINGH	(No. 15462680N now JC246706X)	* 02 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 09 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) IQBAL SINGH	(No. 15462326Y now JC246707A)	01 Oct 2014
DFR(OPR/GNR) TARVINDER SINGH	(No. 15463119Y now JC246708H)	01 Oct 2014
DFR(OPR/GNR) DILBAR KHAN	(No. 15467380W now JC246709L)	*19 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 31 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) SANJAY KUMAR	(No. 1099513L now JC246711H)	01 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 12 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) HAWA SINGH DHAYAL	(No. 15463987L now JC246712L)	01 Oct 2014
DFR(OPR/GNR) VILAS MUTAKEKAR	(No. 15462511M now JC246714W)	*29 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) CHARAN SINGH	(No. 15466197F now JC246718M)	*29 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(GNR/OPR) KARAMJIT SINGH	(No. 15469104M now JC246719P)	* 29 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/DVR) LEKH RAJ	(No. 15462687X now JC246715Y)	*27 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) PRAMOD KUMAR	(No. 15464524H now JC246716F)	*27 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 10 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) UMESH SINGH	(No. 15463381F now JC246717K)	*27 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) AJAY KUMAR SINGH	(No. 15462407Y now JC246720K)	*29 Sep 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		

DFR(OPR/DVR) RAJENDRA SINGH	(No. 15467899M now JC246728W)	*04 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 07 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) S ANANDAN	(No. 15464522X now JC246730N)	*04 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) NAGARAJU D	(No. 15463497X now JC246722P)	* 04 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 15 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) RAM CHANDRA	(No. 15463582A now JC246723X)	*01 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/DVR) SHARAWAN KUMAR	(No. 15464500Y now JC246724A)	*04 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) GOKUL CHAND	(No. 15462290L now JC246725H)	*01 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) ARBIND KUMAR SINGH	(No. 15463607F now JC246729Y)	*02 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) JASWINDER SINGH	(No. 15465867L now JC246686P)	*28 Aug 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) SULTAN KHAN	(No. 15468786W now JC246710A)	*14 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) SURESH CHANDRA	(No. 15466250F now JC246727N)	*08 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) SURENDAR SINGH YADAV	(No. 15461814P now JC246699M)	*03 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) VIDYA SAGAR SINGH	(No. 15461690L now JC246732Y)	01 Nov 2014
DFR(DVR/GNR) RAKESH KUMAR TOMAR	(No. 15462944K now JC246733F)	01 Nov 2014
DFR(OPR/GNR) AKHILANAND CHOUDHARY	(No. 15464324M now JC246734K)	*03 Nov 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(GNR/DVR) JAGDEV SINGH	(No. 15467026F now JC246735M)	*22 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) SHIVRAM SINGH SHIKARWAR	(No. 15462621F now JC246738A)	*23 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) RAM SINGH	(No. 15462368L now JC246739H)	*27 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/OPR) SATYA VEER SINGH	(No. 15462410Y now JC246740X)	*27 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(DVR/GNR) MAHENDR NATH	(No. 15462495A now JC246741A)	01 Nov 2014
DFR(DVR/OPR) PARMOD KUMAR	(No. 15466668K now JC246744N)	*30 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
DFR(OPR/GNR) MOHAN RAM	(No. 15465692N now JC246736P)	*24 Oct 2014
*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 02 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		

RAJEEV JOHRI
Under Secretary

ARMY BRANCH

No. 41, dated 6th February 2015—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from Army Service, w.e.f. the dates shown against their names under AI 37/78

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

RETIREMENT

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
(a)	DR-10368W	Col (TS)	RB Singh	31-07-2014 (AN)
(b)	DR-10348H	Col (TS)	PK Singhal	30-09-2014 (AN)
(c)	DR- 10418Y	Col (TS)	SR Agarwal	30-09-2014 (AN)

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Retirement
(a)	DR-10347A (30897G)	Air Cmde	HK Thombre	31-03-2014 (AN)
(b)	DR-10317H (17798F)	Gp Capt (TS)	JK Jain	28-02-2014 (AN)

The President is pleased to permit the undermentioned officers to prematurely retire from Army Service, w.e.f. the dates shown against their names under AI 37/78:

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

PREMATURE RETIREMENT

Sr No	Personal No	Rank	Name	Date of Premature Retirement
(a)	DR-10374K (AF-30363)	Gp Capt	Satish Kumar Gupta	16 Jan 2014 (FN)

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

No. 42, dated 9th February 2015—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 02 Nov 2013 under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officers:-

FOR

Sr No	Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12393N	Sukhdeep Singh	13-03-2012
(b)	DS-12392L	Ramakrishna N	13-03-2012
(c)	DS-12397K	Sandeep Singh	27-04-2012

READ

Sr No	Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12393N	Sukhdeep Singh	13-09-2011
(b)	DS-12392L	Ramakrishna N	13-09-2011
(c)	DS-12397K	Sandeep Singh	27-10-2011

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 07 Jun 2014 under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer:-

FOR

Sr No	Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12329W	Shashi Kant Sharma	12-07-2013

READ

Sr No	Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12329W	Shashi Kant Sharma	12-01-2013

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 30 Mar 2013 under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officers:-

FOR

Sr No	Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12377W	Peeyush Pathak	28-02-2012
(b)	DS-12387A	Pankaj Kaushik	05-03-2012

READ

Sr No	Pers No	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DS-12377W	Peeyush Pathak	28-08-2011
(b)	DS-12387A	Pankaj Kaushik	05-09-2011

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 07 Jun 2014 under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer:-

FOR

Sr No	Pers No	Rank	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DR-10676W	Capt	T Balasundaram	22-07-2013

READ

Sr No	Pers No	Rank	Name	Dt of prom to the rank of Maj
(a)	DR-10676W	Capt	T Balasundaram	22-01-2013

HS SANDHU
Brig
Dy DGDS (P)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद
में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in